



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1344]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 9, 2006/कार्तिक 18, 1928

No. 1344]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2006/KARTIKA 18, 1928

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 9 नवम्बर, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अधिनिर्णायक) (संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1935(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अधिनिर्णायक) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा।
- (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 में, विनियम 6 में, उप-विनियम (1) में, खण्ड (V) को पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु यह कि खण्ड (V) में उपबंधित निरर्हता उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगी जो पब्लिक सेक्टर (सार्वजनिक क्षेत्र) बैंक या पब्लिक सेक्टर उपक्रम का पूर्णकालिक निदेशक रहा हो।

स्पष्टीकरण :- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए—

(क) ‘पब्लिक सेक्टर बैंक’ से अभिप्रेत है—

- (i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी नया बैंक;

- (ii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी नया बैंक;

- (iii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

- (iv) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक;

- (ख) ‘पब्लिक सेक्टर उपक्रम’ से किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी अभिप्रेत है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।”

[सं. 11/एल सी/जी एन/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण : (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003, सं. का.आ. 953(अ), 21-8-2003 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित हुए थे।

- (2) यह तत्पश्चात् 5-12-2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अधिनिर्णायक) संशोधन विनियम, 2003, फा. सं. भाप्रविबो/विधि/डीओपी/22090/2003, द्वारा संशोधित हुआ था।

**SECURITIES AND EXCHANGE
BOARD OF INDIA**

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th November, 2006

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF
INDIA (OMBUDSMAN) (AMENDMENT)
REGULATIONS, 2006**

S.O. 1935(E).—In exercise of the powers conferred by Section 30 read with Sub-section (1) of Section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003, namely:—

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) (Amendment) Regulations, 2006.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003, in regulation 6, in sub-regulation (1), after clause (v) the following shall be inserted, namely:—

“Provided that the disqualification provided in clause (v) shall not be applicable in case of a person who has been the whole-time director of a public sector bank or a public sector undertaking.

Explanation:— For the purposes of this clause—

- (a) ‘public sector bank’ means —
- (i) a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking

Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);

- (ii) a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);
- (iii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);
- (iv) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);
- (b) ‘public sector undertaking’ means any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) which is owned, controlled or managed by the Central Government.”

[No. 11/LC/GN/2006]

M. DAMODARAN, Chairman

- Foot Note:—**
1. Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003 were notified in the Gazette of India on 21-8-2003 vide No. S.O. 953(E).
 2. It was subsequently amended by Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) (Amendment) Regulations, 2003 on 05.12.03 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/22090/2003.